

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2383]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 4, 1936

No. 2383]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGARHAYAN 4, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

का.आ. 2965(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1231(अ), तारीख 7 मई, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के **पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ए के 0.000 कि.मी. से 62.200 कि.मी. (पीपराकोठी—रक्सौल सेक्शन) और भारत—नेपाल सीमा को जोड़ने वाले रक्सौल बाइपास सेक्शन तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 19 जुलाई, 2014 को “प्रभात खबर” और 24 जुलाई, 2014 को “हिन्दुस्तान” में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ए के कि.मी. 0.000 कि.मी. से कि.मी. 62.200 एवं भारत-नेपाल सीमा (पीपराकोठी-रक्सौल खंड) को जोड़ने वाली रक्सौल बाईपास के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

" जिला - मोतिहारी "

क्रम सं०	जिले का नाम	तालुक/ब्लॉक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे प्लॉट नं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-स्वामित्व/हितसंबद्ध रैयतों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्वी चम्पारण	1. पीपराकोठी	(1) चांद सरैया	210	सरकारी	कृषि	0.0460	सरकारी
				208	निजी	आवासीय	0.0540	शेख सफी अहमद वो शेख हबीब, मो० हासिम पिता-नुरमहम्मद मियां, पप्पु आलम पिता-जैनुदीन मसुरी, शेख जवाहीर पिता-शेख अहमद
				209	निजी	आवासीय	0.0480	अरुण कुमार मीश्र पिता-हरिशंकर मीश्र, अशोक प्रसाद जयसवाल पिता-ललीत प्रसाद जयसवाल, रामचन्द्र साह पिता-रामाश्रय साह
				199	निजी	आवासीय	0.0260	सुखाड़ी देवान वो अतिउल्लाह देवान वो वहीद देवान वो लतीफ देवान पिता-मकसुद देवान, शेख अमानल्लाह पिता-शेखवासव, शम्मी अख्तर देवान वो वसी अख्तर देवान वो कलीम अख्तर देवान पिता-अमरुल्लाह देवान
				198	निजी	आवासीय	0.0400	वजैद देवान पिता-गफूर देवान, सगीर मियां पिता-नैमुदीन मियां, वसीर मियां पिता-नैमुदीन मियां, नैमुदीन मियां पिता-हबीब मियां, नुरमहम्मद मियां पिता-हबीब मियां, मो० नसरुदीन वो मो० युनुस पिता-कदीम मियां, मो० सगीर पिता-मो० नैमुदीन, मो० जामुदीन मियां पिता-रफीक मियां, नेजाम मियां वो वजीर मियां वो मो० मनसुर
				197	निजी	आवासीय	0.0140	गुड्डु मियां पिता-मो० ईशा, नाजिर हुसैन पिता-मो० ईशा, मो० मुस्तकीम पिता-मोहरम मियां, ईशा मियां पिता-समसुल हक, यासिन मियां वो कदमुदीन मियां पिता-स्व० सदीक मियां
				182	निजी	आवासीय	0.0080	साधु बैठा पिता-स्व० बहादुर बैठा, रामदेव बैठा पिता-स्व० बहादुर बैठा
				180	निजी	आवासीय	0.0260	बद्री सहनी वो तुलसी सहनी वो सुरेश सहनी पिता-स्व० मुन्नी सहनी, तुलसी सहनी पिता-स्व० मुन्नी सहनी, वीरन सहनी पिता-स्व० दीप सहनी, मु० गोरी माया देवी पति-स्व० बिल्लु सहनी, मु० सुलमति देवी पति-स्व० चन्द्रिका सहनी, खेदु सहनी पिता-स्व० चन्द्रिका सहनी, शेख आविद पिता-शेख मंजुर, शेख अवास पिता-स्व० एकबाल मियां
				169	निजी	आवासीय	0.0140	सकुर मियां पिता-स्व० गुलगनी मियां
				168	निजी	आवासीय	0.0132	सुदामा सहनी पिता-लालबिहारी सहनी, भोला सहनी पिता-सुदामा सहनी, शेख नौशाद पिता-शेख मजदुर, एतवार सहनी पिता-महादेव सहनी, झगरु सहनी पिता-एतवार सहनी
				165	निजी	आवासीय	0.0040	छोटेलाल प्रसाद पिता-जयनाथ प्रसाद
				164	निजी	आवासीय	0.0060	छोटेलाल प्रसाद पिता-जयनाथ प्रसाद
				163	निजी	आवासीय	0.0060	बालिस्टर गिरि
				162	निजी	आवासीय	0.0060	शेख नौशाद पिता-शेख मजहर
				161	निजी	आवासीय	0.0060	शेख इसाद वो शेख तवरेज पिता-शेख मजहर
				157	निजी	आवासीय	0.0240	साधु बैठा वो शिवनंदन बैठा वो अवतार बैठा पिता-स्व० बहादुर बैठा
				156	निजी	आवासीय	0.0370	शेख खवीर पिता-शेख तबारक
				151	निजी	आवासीय	0.0020	शेख खैराती पिता-शेख तबारक

				44	निजी	आवासीय	0.0020	चुन्नु साह वो लालबाबु साह पिता-स्व0 नारायण साह
				38	निजी	आवासीय	0.0010	नवल बैठा
				42	निजी	आवासीय	0.0010	नवल बैठा
				41	निजी	आवासीय	0.0020	हफीज मियां
				40	निजी	आवासीय	0.0040	पार्वती देवी पति-महादेव साह
				32	निजी	आवासीय	0.0020	शेख वाजीद हुसैन पिता-शेख हेफाजत
				33	निजी	आवासीय	0.0100	शेख वाजीद हुसैन पिता-शेख हेफाजत
				34	निजी	आवासीय	0.0060	रंजीत गुप्ता पिता-गणेश साह
				5	निजी	आवासीय	0.0030	अजन रंजित गुप्ता पिता-गणेश साह
				289	सरकारी	सड़क	0.0540	बिहार सरकार
				290	निजी	आवासीय	0.1670	मो0 अलीमुन पिता-शेख अब्दुल, हवदीन मियां पिता-भोला मियां, अमजद मियां पिता-नेजामुद्दीन मियां, गयासुद्दीन मियां वो सलामुद्दीन मियां वो सलाहुद्दीन मियां पिता-जहुर मियां, अवास मियां पिता-इद्रीश मियां, काजीम मियां पिता-नुरमहम्मद, कादीर मियां पिता-नुरमहम्मद मियां, महम्मद कासिम पिता-नुरमहम्मद मियां, मो आलम पिता-किताब मियां, मो आसीन पिता-नुरमहम्मद, कादिर मियां वो असलम मियां पिता-नुरमहम्मद, मो कादिर पिता-नुरमहम्मद, मो हमजा खातुन पति-मो इसराईल, आसमोहमद पिता-हुराई मियां, मो शकुर मियां पिता-अब्दुल मियां, इस्लाम मियां पिता-अब्दुल मियां, मोदी मियां वो यासिन मियां पिता-सदीक मियां, मो अमानुल्लाह पिता-मो शवीर वो मेरा आलम पिता-मो अजीमुल्लाह, मो अमानुल्लाह पिता-शेख हमीद, शेख एकरामुल्लाह पिता-शेख हमीद, बिहार सरकार
				303	निजी	आवासीय	0.0769	तबारक हुसैन पिता-नुरमहम्मद देवान, अतिमुल्लाह देवान पिता-मकसुद देवान वो सटइ देवान सकुर मियां पिता-लतीफ मियां, आदर मियां पिता-लतीफ मियां, कादीर मियां पिता-लतीफ मियां, शरीफ मियां पिता-लतीफ मियां
				309	निजी	आवासीय	0.0100	मेंमुल हक पिता-करीम मियां
				310	निजी	आवासीय	0.0100	जौआद मियां पिता-शमसुल हक, इशा मोहमद पिता-समसुल मियां, मो चेन्दु मियां पिता-समसुल मियां
				334	निजी	आवासीय	0.0270	जीमल अख्तर वो मो0 सेराजुल वो मो0 एजाजुल पिता-हफीज मियां, मो अदालत मियां पिता-समसुल हक, मो वसीर मियां पिता-समसुल मियां
				335	निजी	आवासीय	0.0210	मो अमजद पिता-मरहुम वो इस्लाम मियां सरफुद्दीन मियां पिता-वाजिद मियां, बुल्ला मियां पिता-एनुल मियां, अदालत मियां पिता-समसुल मियां
				346	निजी	आवासीय	0.0080	रविन्दु पासवान वो सुरेन्द्र पासवान, नरेश पासवान वो हरेन्द्र पासवान पिता-दराई पासवान, मो राजमति देवी पति-स्व0 सुकेशर पासवान, भालवन पासवान पिता-स्व0 भुखल पासवान, साधु पासवान पिता-स्व0 भुखल पासवान
				347	निजी	आवासीय	0.0080	ललन पासवान पिता-भुलावन पासवान, विगु पासवान पिता-भुलावन पासवान
				349	निजी	आवासीय	0.0090	राजेन्द्र सहनी पिता-स्व0 परीक्षण सहनी, मेंजु तिवारी पति-पशुपति कुमार तिवारी
				350	निजी	आवासीय	0.0051	अदालत मियां के समधि
				359	निजी	आवासीय	0.0440	सुर्य सहनी पिता-ठग सहनी, मोहन सहनी पिता-रतन सहनी

				118	निजी	आवासीय	0.0480	आत्मा सहनी पिता-स्व0 भोला सहनी, सत्यनारायण पुरी, शेख नुरुल हक पिता-शेख शैकत, जगदीश साह पिता-स्व0 बुनी साह, वासदेव साह पिता-नरायण साह, जैमुदीन मियां वो सरफुदीन पिता-फजल मियां, रामसागर शर्मा पिता-रामजी शर्मा
				283	सरकारी	कृषि	0.1760	चुटुन प्रसाद पिता-इन्द्रदेव साह, सोनु कुमार जयसवाल जयलाल प्रसा जयसवाल, मुनमुन प्रसाद पिता-बिजली साह, नरेश शर्मा पिता-सुर्य शर्मा, श्रीमति प्रतिमा देवी पति-जयलाल प्रसाद जयसवाल, नागेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 रामस्वरूप साह विश्वनाथ साह पिता-रामाशिष साह, आशलाल प्रसाद पिता-स्व0 चन्द्रिका साह, रमेश सहनी वो सुरेश सहनी वो राकेश सहनी पिता-योगी सहनी, दिनेश कु0 जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, रेणु गुप्ता पति-स्व0 विजय गुप्ता, पंचालाल प्रसाद वो शंभु प्रसाद वो मिश्रीलाल प्रसाद पिता-स्व0 रामानंद प्रसाद नन्देश्वर साह पिता-रामाशिष साह, श्रीमति किशमति देवी पति-विन्देश्वरी साह वो विन्देश्वरी साह पिता-स्व0 गणेश साह, सरकारी रोड
				212	निजी	आवासीय	0.2270	मेवालाल साह पिता-स्व0 चन्द्रिका साह, भुआली शर्मा पिता-स्व0 रामपुनित शर्मा वो टुनटुन शर्मा पिता-रामपुनित शर्मा वो प्रभु शर्मा पिता-स्व0 रामप्रीत शर्मा, नन्दकिशोर वो चन्देश्वर शर्मा पिता-स्व0 राजदेव शर्मा, वासदेव शर्मा पिता-सुन्दर मिस्त्री, जयमुदीन मियां वो अमजद मियां पिता-फजल मियां किसमति देवी पति-विन्देश्वरी साह, जगदीश साह पिता-कुनीलाल साह, वासदेव साह पिता-स्व0 नरायण साह, मनोज प्रसाद पिता-जगदीश प्रसाद, अनिल मियां पिता-मैनुल हक, जैमुदीन वो सरफुदीन पिता-फजल मियां, अमजद अली पिता-नेजामुदीन मियां, सदीम मियां पिता-सलीम मियां, मो0 मोस्तकीम वो मो0 कलाम पिता-कइम मियां
				284	मंदीर	मंदीर	0.0285	मंदीर
				285	निजी	आवासीय	0.4020	समाज सदन, हिरालाल प्रसाद जयसवाल पिता-स्व0 सरयुग प्रसाद जयसवाल, मोतीलाल प्रसाद जयसवाल पिता-सरयुग प्रसाद जयसवाल, सुरेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, रमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, दिनेश कुमार जयसवाल पिता-रामसेवक प्रसाद जयसवाल, राजेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, उमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, मोतीलाल जयसवाल पिता-स्व0 सरयुग प्रसाद जयसवाल, सुरेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, रमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, दिनेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, उमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, राजेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, हिरालाल प्रसाद जयसवाल पिता-स्व0 सरयुग प्रसाद जयसवाल, सुरेश कुमार जयसवाल पिता-रामसेवक प्रसाद जयसवाल, रमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, दिनेश कुमार जयसवाल, उमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0 रामसेवक प्रसाद जयसवाल, उमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व0

							रामसेवक प्रसाद जयसवाल, राजेश कुमार जयसवाल पिता-स्व० रामसेवक प्रसाद जयसवाल, दिनेश कुमार जयसवाल पिता-स्व० रामसेवक प्रसाद जयसवाल, सुरेश कुमार जयसवाल पिता-स्व० रामसेवक प्रसाद जयसवाल, रमेश कुमार जयसवाल पिता-स्व० रामसेवक प्रसाद जयसवाल
		(2) मधु छपरा	929	निजी	आवासीय	0.0060	राजेन्द्र राय वो हिरालाल राय पिता-स्व० सरयुग राय
			931	निजी	आवासीय	0.0090	राजेन्द्र रय वो हिरालाल राय पिता-स्व० सरयुग राय
			935	निजी	आवासीय	0.0036	शान्ति पाण्डेय पति-हरिनारायण पाण्डेय वो दयानंद पाण्डेय पिता-विन्देश्वरी पाण्डेय
			943	निजी	आवासीय	0.0080	वकिल बैठा वो लालदेव बैठा पिता-स्व० महंगु बैठा
			947	निजी	आवासीय	0.0200	सुरेन्द्र दास पिता-स्व० यदुनन दास वो चन्द्रदेव दास पिता-स्व० शीतल दास वो रविन्द्र कुमार दास पिता-तुलसी दास वो राजेन्द्र दास पिता-स्व० सुर्य दास वो सविन्द्र दास पिता-स्व० सत्यदेव दास
			951	निजी	आवासीय	0.0172	भोली साह पिता-हरुनी साह वो प्रभु साह पिता-हिरामन साह, विरेन्द्र पाण्डेय वो ओमकार पाण्डेय वो जवाहर लाल पाण्डेय वो शंकर पाण्डेय वो नर्मदेश्वर पाण्डेय पिता-स्व० शिवजी पाण्डेय
			968	निजी	आवासीय	0.0020	मीर मनुदीन पिता-मीर नसरीदीन
			970	निजी	आवासीय	0.0020	मीर सजाद पिता-मीर हसन, बाबूलाल बैठा वो राजेश्वर बैठा वो शैलेन्द्र बैठा वो राकेश बैठा पिता-स्व० झींगन बैठा
			974	निजी	आवासीय	0.0010	मीर सजाद पिता-मीर अब्दुल हसन
			994	निजी	आवासीय	0.0010	I शंकर साह वो रामा साह वो श्यामा साह पिता-नथुनी साह
		(3) सुरुजपुर	33	निजी	आवासीय	0.0204	योगनन भगत वो राजु रंजन प्रसाद कुशवाहा वो सुरेश प्रसाद वो महेश प्रसाद पिता-स्व० अंचित भगत, परशुराम गिरि उच्च विद्यालय जिवधारा
			34	निजी	आवासीय	0.0340	परशुराम गिरि उच्च विद्यालय जिवधारा
			35	निजी	आवासीय	0.0160	यागेन्द्र प्रसाद पिता-धनसुरत साह
			36	निजी	आवासीय	0.0200	विरेन्द्र प्रसाद पिता-धनसुरत साह
			37	निजी	आवासीय	0.0296	विरेन्द्र प्रसाद पिता-धनसुरत साह, विन्दालाल साह वो मथुरा साह वो भरत साह पिता-स्व० जगनाथ साह
			38	निजी	आवासीय	0.0350	उमाशंकर प्रसाद वो रमेश प्रसाद पिता-स्व० कोदई साह, दयानंद पाण्डेय पिता-स्व० रामअयोध्या पाण्डेय, रामचन्द्र साह पिता-स्व० सरयुग साह
			42	निजी	आवासीय	0.0820	मथुरा ठाकुर पिता-स्व० प्रागन ठाकुर, दिलीप राय वो पुन्यदेव राय वो सुदीप राय वो चन्द्रिका राय पिता-स्व० सुर्य राय, वागड़ राय पिता-स्व० शिवनंदन राय, योगेन्द्र राय पिता-स्व० शिवनंदन राय, सुशीला देवी पति-मानिकचन्द्र प्रसाद, फूलमहमद देवान पिता-स्व० तबारक हुसैन
			47	निजी	आवासीय	0.0060	रामदेव साह पिता-स्व० धुनी साह
			48	निजी	आवासीय	0.0092	इस्लाम मियां वो अब्दुल्लाह मियां पिता-स्व० रसुल मियां
			49	निजी	आवासीय	0.0072	बाबूलाल राय पिता-स्व० दुखहरन राय
			59	निजी	आवासीय	0.0132	नसरुदीन मियां वो नैमुदीन मियां पिता-स्व० सदाक मियां, ऐनुल मियां वो समसुल मियां वो सैनुल मियां पिता-स्व० राजबली मियां, भोला मियां वो अख्तर मियां पिता-स्व० जोखु मियां, रंजीत गुप्ता पिता-स्व० गणेश साह, महेन्द्र साह पिता-स्व० युगुल साह

				60	निजी	आवासीय	0.0080	गौरी देवी पति-नगीना ठाकुर
				63	निजी	आवासीय	0.0038	रमेश कुमार पाण्डेय वो अनील कुमार पाण्डेय पिता-स्व० बलिराम पाण्डेय
				65	निजी	आवासीय	0.0116	रामबाबू सिंह पिता-स्व० ब्रह्मदेव सिंह
				67	सरकारी	सड़क	0.0128	बिहार सरकार
				259	सरकारी	सड़क	0.0046	बिहार सरकार
				265	निजी	आवासीय	0.0072	राजेन्द्र राय पिता-स्व० रामरेखा राय, हरिशंकर राय वो लालबाबू राय वो शंभु राय पिता-स्व० जगदीश राय
				270	सरकारी	आवासीय	0.0046	बिहार सरकार
				271	निजी	आवासीय	0.0036	हिरालाल राय पिता-सरयुग राय, राजेन्द्र राय पिता-सरयुग राय
				273	निजी	आवासीय	0.0068	आसुतोषदत्त परासर पिता-स्व० नन्दकिशोर पाण्डेय, रामेश्वर राय वो रामाज्ञा राय वो गोरख राय वो शंभु राय पिता-स्व० वैजनाथ राय
				274	निजी	आवासीय	0.0230	चन्दा पाण्डेय पिता-स्व० नन्दकिशोर पाण्डेय, चन्द्रदेव राय पिता-स्व० छटु राय
				282	निजी	आवासीय	0.0134	नगीना राय पिता-स्व० देवकी राय, शान्ति देवी पति-किशोरी प्रसाद
				315	सरकारी	सड़क	0.0012	बिहार सरकार
	2. मोतिहारी	(1) बरियारपुर		290	सरकारी	सड़क	0.0060	सरकारी
	3. बंजरिया	(1) चैलाहा		877	निजी	आवासीय	0.0607	तुफानी मियां पिता-मंगर मियां, शेख दारा पिता-शेख रजाक, दिवाकर जी पिता-त्रिपाठी तिवारी वो म० खतमुल्लाह, मोति मियां
		(2) बेला छपरा		240	निजी	आवासीय	0.0101	सत्यनारायण राय पुत्र-स्व० हरिशंकर राय
		(3) पंचरुखा		6402	निजी	आवासीय	0.0350	जयराम राय पिता-देवकी राय, हृदयनारायण राय पिता-जयराम राय, शिवपुजन राय पिता-श्यामलाल राय, सुखाडी साह पिता-मोतिचन साह, प्रमोद साह पिता-रामचन्द्र साह, सनद्रीखा प्रसाद पिता-मुखा साह
				6403	निजी	आवासीय	0.0250	हरेन्द्र साह वो ध्रुव साह वो मिटु साह पिता-रघुबीर साह, मिश्रीलाल राय पिता-रमन राय, जयराम राय पिता-देवकी राय, हृदयनारायण राय पिता-जयराम राय
				6404	निजी	आवासीय	0.0320	नारायण साह पिता-मोतिलाल साह, लक्ष्मी साह पिता-मोतिलाल साह, सोनालाल प्रसाद पिता-मोतिलाल साह, मिटु साह पिता-रघुबीर साह
		(4) पटखौलिया		479	निजी	आवासीय	0.0100	मुस्क्रीम रजक पिता-हाफी मियां, किफायत मियां पिता-स्व० हबीब मियां
	4. सुगौली	(1) सुगाँव		2869	निजी	आवासीय	0.0060	विनय झा पिता-मारकन्दे झा
				3299	निजी	कृषि	0.0141	अमेरीका साह पिता-विदेशी साह
				3300	निजी	कृषि	0.0344	रामचन्द्र राउत पिता-रामनाथ राउत, चौदसी साह पिता-स्व० ढोढ़ा साह, तेज राउत पिता-सरयुग राउत, पारस राउत पिता-कालदेव राउत, नागेश्वर राउत पिता-लक्ष्मण राउत, अर्जन राउत पिता-भुलन राउत, हरि राउत पिता-सरयुग राउत, असर्फी राउत वो भरत राउत पिता-गोपाल राउत, इनर राउत पिता-शंकर राउत, रामलाल राउत पिता-सुग्रीम राउत, नारायण राउत पिता-चिरंगी राउत, किशोरी राउत पिता-रामराज राउत, राजेश साह पिता-श्री प्रभु साह, शंभु साह पिता-लखन साह
				3545	निजी	कृषि	0.0010	झुनझुन राउत पिता-देवनन्दन राउत
				3544	निजी	कृषि	0.0030	झुनझुन राउत पिता-देवनन्दन राउत
				3542	निजी	कृषि	0.0030	रामायण महतों पिता-रामलोचन महतो
				3541	निजी	कृषि	0.0010	मोहन पासवान पिता-फलई पासवान

			3539	निजी	कृषि	0.0060	रामायण महतो पिता-रामलोचन महतो, मोहन पासवान पिता-फतई पासवान
			3534	निजी	कृषि	0.0091	रामचन्द्र महतो पिता-स्व0 रघुवीर महतो
			3538	निजी	कृषि	0.0060	विरलाल साह पिता-स्व0 धनेरु साह, अर्जुन साह पिता-भोला साह
			3535	निजी	कृषि	0.0020	हिरामन साह पिता-स्व0 गोपाल साह, विरलाल साह पिता-स्व0 धनेरु साह वो सुदामा साह पिता-स्व0 धनेरु साह, यदु महतो पिता-रामलोचन महतो
			3550	निजी	कृषि	0.0010	म0 इशहाक मिया
		(2) फुलवरिया ओझा	221	निजी	कृषि	0.0060	मो0 मुस्तकीम पिता-म0 इशहाक मियां
		(3) फुलवरिया	1414	निजी	सिंचित	0.0060	शेख मैनुदीन पिता-फरजन अली
			1415	निजी	सिंचित	0.0121	श्री सुदर्शन प्रसाद
			1419	निजी	सिंचित	0.0020	इलियास कुरैशी वो महमद मियां वो रफी मियां पिता-सलिम कुरैशी
			1184	निजी	सिंचित	0.0121	श्री रोहीत गिरी वो कपिलदेव तिवारी पिता-कुलदीप तिवारी
		(4) सुगौली	2267	निजी	विकासशील	0.0060	मंजुर मियां पिता-रसीद मियां वो मजबुल्लाह मियां पिता-रोज मियां
			2255	निजी	विकासशील	0.0607	लुकमान मियां वो रेयाजुल मियां वो सेराजुल मियां पिता-मंशी मियां
			2218	निजी	विकासशील	0.1831	इशलाम मियां पिता-मुर्तजा मियां वो इसुफ मियां पिता-फीदा मियां वो महमुद नेसार पिता-मो0 मुबारक मियां, महमद मंजुर मियां वो महमद , नथुनी मियां पिता-बउद मियां
			2223	निजी	विकासशील	0.0202	किताबुदीन मियां पिता-महबुब मियां
			2219	निजी	विकासशील	0.0161	मिलन कुमार पिता-श्री दर्शन प्रसाद
			2251	निजी	विकासशील	0.0404	नेयामत मियां पिता-इद्रिश मियां
			3081	निजी	आवासीय	0.0161	संजय कुमार श्रीवास्तव पिता-शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, सगीर अहमद वो नसीर अहमद पिता-सदीक अहमद वो महमद अहमद पिता-भुटेली मियां वो रवेया खातुन पति-साह महमद, राजेश कुमार पिता-महाराज प्रसाद
			3080	निजी	आवासीय	0.0040	मु0 श्रीपति देवी पति-स्व0 दितन हजरा
			3069	निजी	आवासीय	0.0080	जितेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-नागेश्वर सिंह
			3067	निजी	आवासीय	0.0080	मोहन लाल मोदी पिता-मुरली मोदी
			3062	निजी	आवासीय	0.0080	संतोष कुमार सोनी पिता-रामजी प्रसाद, जितेन्द्र गुप्ता वो सुरेश गुप्ता पिता-नन्द प्रसाद
			4037	निजी	आवासीय	0.0080	एकबाल मियां पिता-शराफ मियां वो मैनुदीन मियां पिता-रफीक मियां, सुरेश प्रसाद पिता-बैधनाथ प्रसाद
			3939	निजी	आवासीय	0.0202	रोहीत गिरी पिता-ओन्कार गिरी
			4053	निजी	कृषि	0.0607	जैनुदीन मियां वो रुषतम मियां पिता-गफार मियां वो अलाउदीन मियां पिता-जब्बार मियां
		(5) सुकुल पाकड़ उर्फ बेलबतिया	51	निजी	कृषि	0.0647	रामलाल साह वो छोटेलाल साह वो श्यामलाल साह पिता-केशवर साह, जनक साह पिता-स्व0 हरिहर साह
			52	निजी	कृषि	0.0404	जनक साह पिता-स्व0 हरिहर साह, सुरेन्द्र सहनी पिता-भनु सहनी, दिनेश सहनी पिता-शिवबच्चन सहनी, यादोलाल सहनी पिता-स्व0 खेदु सहनी, अमर सहनी पिता-लखीचन सहनी
			53	निजी	कृषि	0.0101	यादोलाल सहनी पिता-स्व0 खेदु सहनी, मुन्नीलाल सहनी वो कोकील सहनी वो सुरेन्द्र सहनी पिता-भनु सहनी, रामचन्द्र सहनी, बेलास सहनी वो शंकर सहनी पिता-सहदेव सहनी, अकलु सहनी पिता-तिलक सहनी, गणेश सहनी

								वो पारस सहनी पिता—तिलक सहनी, कुटाई सहनी, बुटाई सहनी वो अमर सहनी वो सिंगासन सहनी पिता—लखीचन सहनी
				54	निजी	कृषि	0.0060	यादोलाल सहनी पिता—स्व० खेदु सहनी, मुन्नीलाल सहनी वो कोकील सहनी वो सुरेन्द्र सहनी पिता—भनु सहनी, रामचन्द्र सहनी, बेलास सहनी वो शंकर सहनी पिता—सहदेव सहनी, अकलु सहनी पिता—तिलक सहनी, गणेश सहनी वो पारस सहनी पिता—तिलक सहनी, कुटाई सहनी, बुटाई सहनी वो अमर सहनी वो सिंगासन सहनी पिता—लखीचन सहनी
				55	निजी	कृषि	0.0121	बेलास सहनी वो शंकर सहनी वो रामचन्द्र सहनी पिता—स्व० सहदेव सहनी
				56	निजी	कृषि	0.0040	शंकर सहनी वो बेलास सहनी वो रामचन्द्र सहनी पिता—स्व० सहदेव सहनी
				57	निजी	कृषि	0.0070	अमर सहनी वो बुटाई सहनी वो शिवबालक सहनी वो सिंगासन सहनी पिता—स्व० लखीचन सहनी वो पारस सहनी वो अकलु सहनी वो गणेश सहनी पिता—तिलक सहनी
				58	निजी	कृषि	0.0283	जगदेव ठाकुर पिता—यदुवंशी ठाकुर
				59	निजी	कृषि	0.0485	जगदेव ठाकुर पिता—यदुवंशी ठाकुर
				1796	निजी	कृषि	0.1619	महमद आशिक वो म० सलिम वो म० हसीम वो म० मोजमील पिता—उसमानगनी, म० नजीर वो म० फरीद पिता—म० कासिम, म० अबुलैस पिता—म० मंजुर मियां, म० समसुल हक पिता—कदम रसुल मियां, म० जुमैद पिता—म० मुसलीम, म० नुरैन वो म० हसनैन, म० मुराद, म० इरसाद पिता—म० मुसलिम, मानीचन पासवान पिता—बदरी पासवान, मनीष पासवान वो मनोज पासवान वो मंदीप पासवान वो मंगित पासवान पिता—स्व० गणेश पासवान
				1797	निजी	कृषि	0.0344	ब्रह्मा महतो वो कैलाश महतो वो झण्डा महतो पिता—गेना महतो, शिव महतो पिता—छदु महतो, मोहर महतो पिता—सुखल महतो
				1798	निजी	कृषि	0.0182	छदु महतो वो जित्त महतो पिता—भुखल महतो
				1799	निजी	कृषि	0.0161	भगेलु सहनी वो बालदेव सहनी पिता—भिखर सहनी
				1800	निजी	कृषि	0.0172	छदु महतो वो जित्त महतो पिता—भुखल महतो
				61	निजी	कृषि	0.0566	सुरेन्द्र सहनी वो मुन्नीलाल सहनी पिता—स्व० भनु सहनी, अकलु सहनी वो पारस सहनी पिता—स्व० तिलक सहनी, शिवबालक सहनी वो अमर सहनी वो सिंगासन सहनी पिता—लखीचन सहनी, गणेश सहनी पिता—स्व० तिलक सहनी, यादोलाल सहनी पिता—खेदु सहनी, दिनेश सहनी पिता—पंचा सहनी
			(6) लालपरासा	19	निजी	आवासीय	0.0121	श्री गोपाल सहनी वो आशिष सहनी वे नाथु सहनी पिता—गलुर सहनी
			(7) चिलझपटी उर्फ जुआजात	705	निजी	सिंचित	0.0121	श्री भुसी ठाकुर पिता—नारायण ठाकुर
				711	निजी	सिंचित	0.0242	श्री प्रभु साह वो यागेन्द्र साह पिता—गोरख साह वो किशोरी बैठा पिता—रुदल बैठा
				709	निजी	सिंचित	0.0242	श्री भोला महतो पिता—मुखा महतो
				716	निजी	सिंचित	0.0161	श्री रजाक मियां पिता—भोज मियां
		5. रामगढ़वा	(1) धनहर डिहुली	2785	निजी	आवासीय	0.3482	प्रभुनाथ पाण्डेय पिता—स्व० बैजनाथ पाण्डेय, बसंत पासवान, सन्त पासवान वो श्रीकान्त पासवान पिता—स्व० लालबहादुर पासवान, राजेन्द्र प्रसाद वो मनीस्टर प्रसाद पिता—स्व० शिव राजत, रवि भुषण कुशवाहा पिता—चन्द्रिका कुशवाहा
				2806	निजी	आवासीय	0.0101	होरीलाल पटेल पिता—परमेश्वर पटेल

				2815	निजी	आवासीय	0.0121	अविनाश कुशवाहा वो प्रेमरंजन कुशवाहा पिता-श्री अमीरचन्द कुशवाहा
				2816	निजी	आवासीय	0.0172	अविनाश कुशवाहा वो प्रेमरंजन कुशवाहा पिता-श्री अमीरचन्द कुशवाहा
			(2) आमोढ़ेई	5105	निजी	आवासीय	0.0172	तफखजुल रहमान पिता-अफजलुर रहमान
		6. रक्सौल	(1) सेनुरिया	456	निजी	आवासीय	0.0222	महमुद आलम पिता-स्व0 जैनुदीन मियां, महमद गौरी आलम पिता-स्व0 मौलबी हुसैन, सुलतान अहमद पिता-स्व0 मौलबी हुसैन, परवेज आलम पिता-स्व0 एकबाल हुसैन
			(2) कनना परसोतिनपुर	2286	निजी	आवासीय	1.6690	कमलेश कुमार पिता-जवाहर लाल प्रसाद, अनिता देवी पति-कमलेश कुमार, मीणा देवी पति-जवाहरलाल प्रसाद, मनोज कुमार शर्मा वो अशोक कुमार शर्मा पिता-स्व0 छेदीलाल शर्मा, पार्वती देवी पति-गोपी राम अग्रवाल, निकीबाबू, डा0 रिजवाना पति-खुशींद आलम, सर्वलाईफ इण्डिया धार्मिक चेरिटबुल ट्रस्ट(अनाथ आश्रम), मनीर अंसारी पिता-स्व0 रहीमन मियां, मशहूद अंसारी पिता-रसुद अंसारी, महमद रफीक पिता-स्व0 इशा मियां, अतिक अंसारी पिता-स्व0 सदीक अंसारी
				930	निजी	आवासीय	0.0222	सीताराम राय वो रामदेव राय वो भगवान राय पिता-स्व0 इनर राय
				2258	निजी	आवासीय	0.0222	विनोद सिंह पिता-स्व0 सहदेव सिंह
				2289	निजी	आवासीय	1.3513	सैमुदीन अंसारी पिता-अब्दुल हमीद मियां, उमेश कुमार मेहता पिता-स्व0 बैजनाथ मेहता वो अजित कुमार मेहता पिता-विनोद कुमार, सगीर अहमद पिता-स्व0 जहिर बाबू, खोतयजा खातुन पति-नसीर अहमद, ताहिर हुसैन वो शेर महमद वो जुलफकार अली पिता-स्व0 सरीक अंसारी, वसीर आलम वो मुस्लीम अंसारी पिता-स्व0 समीर मियां, बीबी रकीमा खातुन पति-स्व0 नुरमहमद, तरीफ मियां पिता-स्व0 इनायत मियां, मोजाहीद मियां पिता-लखटु मियां, राजु गुप्ता पिता-रामाशिष गुप्ता, मु0 सोमरिया पति-स्व0 शिवबालक महतो, इम्तेयाज अहमद वो जिसान अहमद पिता-सगीर अहमद
				970	निजी	आवासीय	0.0597	जंगबहादुर महतो पिता-स्व0 योगेन्द्र महतो, मुन्नीलाल महतो वो लालबहादुर महतो पिता-स्व0 योगेन्द्र महतो, सीताराम महतो पिता-शिवदयाल महतो, राजदेव महतो पिता-स्व0 शिवदयाल महतो
				931	निजी	आवासीय	0.0080	सहदेव राय पिता-लोरिक राय वो नयन देवी पति-श्री राम
				999	निजी	आवासीय	0.0637	रामबालक राउत पिता-चोकट राउत
				961	निजी	आवासीय	0.0060	रामबालक राउत पिता-चोकट राउत
				1001	निजी	आवासीय	0.0356	रामबालक राउत पिता-चोकट राउत
				998	निजी	आवासीय	0.0182	रामबालक राउत पिता-चोकट राउत
				1002	निजी	आवासीय	0.0070	रामबालक राउत पिता-चोकट राउत
				979	निजी	आवासीय	0.0060	रामअयोध्या राउत पिता-चोकट राउत
				996	निजी	आवासीय	0.0344	रामाज्ञा यादव पिता-स्व0 चोकट राउत
				964	निजी	आवासीय	0.0080	यंगबहादुर यादव पिता-रामबालक यादव, नायक साह पिता-भुखल साह
				997	निजी	आवासीय	0.0283	नायक साह पिता-स्व0 भुखल साह
				1003	निजी	आवासीय	0.0040	नायक साह पिता-स्व0 भुखल साह
				1052	निजी	आवासीय	0.0050	रामेश्वर पटेल पिता-बंका पटेल
				1022	निजी	आवासीय	0.0212	नागेन्द्र राउत पिता-रामअयोध्या राउत, दुखी महतो पिता-देवराज महतो
				951	निजी	आवासीय	0.0040	रामसेवक राय वो गंगा राय वो शंभु राय पिता-स्व0 मंगल राय
				954	निजी	आवासीय	0.0030	रामसेवक राय वो गंगा राय वो शंभु राय पिता-स्व0 मंगल राय

				959	निजी	आवासीय	0.0070	रामसेवक राय वो गंगा राय वो शंभु राय पिता-स्व० मंगल राय
				1051	निजी	आवासीय	0.0040	कमरुद्दीन अंसारी पिता-स्व० आलम अंसारी
				1029	निजी	आवासीय	0.0040	जमदार महतो पिता-स्व० देव महतो
				945	निजी	आवासीय	0.0020	महमद गनी पिता-हेदायत हुसैन
				952	निजी	आवासीय	0.0100	रामसेवक राय पिता-मंगल राय
		(3)	जोकियारी	620	निजी	आवासीय	0.0010	मु० विपती देवी पति-स्व० दीनदयाल प्रसाद
				621	निजी	आवासीय	0.0202	विपीन कुमार प्रसाद पिता-स्व० दीनदयाल प्रसाद
				1261	निजी	आवासीय	0.0020	ताहिर मियां पिता-मोबारक मियां
				182	निजी	आवासीय	0.0020	रामनरेश प्रसाद पिता-रामनारायण साह, नन्दकिशोर प्रसाद पिता-मोटिलाल प्रसाद, पासपति देवी राजकुमार प्रसाद, रमेश सिंह पिता-स्व० चन्दर सिंह, मनोज कुमार सिंह पिता-स्व० निर्मल सिंह
				184	निजी	आवासीय	0.1524	नारायण प्रसाद साह पिता-स्व० शारदानंद प्रसाद साह, चन्दा देवी पति-रामदयाल प्रसाद, उर्मिला देवी पति-विरेन्द्र प्रसाद, राजेश गुप्ता पिता-रामनरेश प्रसाद, विरेन्द्र प्रसाद पिता-स्व० देवनारायण प्रसाद, रमेश सिंह पिता-स्व० चन्दर सिंह, मनोज कुमार सिंह पिता-स्व० निर्मल सिंह
				192	निजी	आवासीय	0.0020	प्रदुमन कुमार गुप्ता पिता-रामवृक्ष साह
				611	निजी	आवासीय	0.0202	वेनी साह पिता-भदई साह, मनउर हसैन पिता-महमद मियां, सुरेश महतो पिता-मुखी महतो
				614	निजी	आवासीय	0.0020	अवधेश प्रसाद वो विनय प्रसाद पिता-जिवनारायण साह
				617	निजी	आवासीय	0.0060	विन्दा साह पिता-स्व० सीताराम साह
				619	निजी	आवासीय	0.0293	रामनिवास कुमार पिता-गाया साह
				1234	निजी	आवासीय	0.0070	म० हुसैन
				1252	निजी	आवासीय	0.0020	मानचन साह पिता-चतुरी साह
		(4)	धनगढ़वा टोला परेवा	289	निजी	विकासशील	0.0222	महमद सुयान पिता-स्व० अहमद मियां
				292	निजी	विकासशील	0.0141	सोनापति देवी पति-हिरा राय
				315	निजी	विकासशील	0.0597	कपिलदेव राउत पिता-स्व० नसीब राउत
		(5)	चिकनी	260	निजी	आवासीय	0.0141	रामबाबू साह पिता-स्व० ब्रह्मदेव साह
				266	निजी	आवासीय	0.0303	गोविन्द सिकारिया पिता-पुरुषोत्तम लाल सिकारिया, रिता देवी पति-गोविन्द सिकारिया, हिरामण दास पिता-सूर्यपाल दास
				254	निजी	आवासीय	0.0850	प्रभात रंजन सिन्हा पिता-स्व० एकबाल नारायण सिन्हा, लालबाबू श्रीवास्तव पिता-स्व० रामचन्द्र श्रीवास्तव
				253	निजी	आवासीय	0.1295	तारकेश्वर श्रीवास्तव पिता-रामजीलाल श्रीवास्तव, लक्ष्मण प्रसाद, लालबाबू प्रसाद, नवनीत श्रीवास्तव पिता-मकसुदन श्रीवास्तव
				256	निजी	आवासीय	0.0111	विजय दास पिता-स्व० विरा दास
		(6)	सिंहपुर	324	निजी	आवासीय	1.0121	नरेन्द्र प्रताप सिंह पिता-स्व० राजमंगल सिंह, सुमेश्वर सिंह पिता-स्व० रघुनाथ सिंह, सत्यनारायण बैठा पिता-स्व० भिखारी बैठा, श्याम प्रसाद कुशवाहा पिता-अंबिका प्रसाद, इलाइची देवी पति-रामाश्रय महतो, छतु महतो, नागेन्द्र महतो पिता-स्व० रामराज महतो, मकसुद मियां पिता-हेदायत अंसारी, महमद सरीफ अंसारी पिता-हेदायत अंसारी
				341	निजी	आवासीय	0.0222	अनुप कुमार सिंह पिता-स्व० कामेश्वर सिंह
		(7)	हरैया	311	निजी	आवासीय	0.2874	नरेन्द्र प्रताप सिंह पिता-स्व० राजमंगल सिंह

				580	निजी	आवासीय	0.0080	दुखी मियां पिता-स्व० एकबाली मियां, रामेश्वर साह पिता-हरिहर साह, उसमान मियां पिता-सहीद अंसारी
				560	निजी	आवासीय	0.0587	रामजनक राम पिता-स्व० चुनी हजरा, रामधारी हजरा पिता-स्व० चुनी हजरा, विजय पासवान वो अजय पासवान वो सुनय पासवान वो विनय पासवान पिता-स्व० भागीरथ हजरा, वद्री पासवान

[फा. स. एनएचआई/बीओटी/11012/19/2004/एल.ए.]

माया प्रकाश, निर्देशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2014

S.O. 2965(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1231(E), dated 7th May, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 28A on the stretch from Km. 0.000 to Km. 62.200 (Piprakothi-Raxaul Section) and Raxaul Bypass Section joining Indo-Nepal Border in the District **East Champaran, Motihari** in the State of **Bihar**;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prabhat Khabar”, dated the 19th July, 2014 and in “Hindustan” dated the 24th July, 2014, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 0.000 to Km 62.200 (Piprakoti-Raxaul Section) of National Highways No. - 28A and Raxaul Bypass section joining Indo-Nepal Border in the state of Bihar

" DISTRICT - Motihari "

Sl. No.	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey Plot No.	Type of land	Nature of land	Area (In Hectares)	Name of raiyat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	East Champaran	1. Piprakothi	(1) Chand Saraiya	210	Govt.	Agriculture	0.0460	Govt of Bihar
				208	Private	Residential	0.0540	shekh safi ahmad & shekh Habib, mo Hasim s/o-Nurmahmad miya, papu aalam s/o-jainudin masuri, shekh jwahir s/o-shekh Mohamd

				209	Private	Residential	0.0480	Arun kumar mishra s/o-Harisankar Mishra, Ashok Prasad Jaysawal s/o-Lalit Prasad Jaysawal, Ramchandra Sah s/o-Ramasharay Sah
				199	Private	Residential	0.0260	Sukhari dewan & Atiullah dewan & wahid dewan & Lathf dewan s/o-Maksud dewan, shekh Amanullah s/o-shekh vashv, shami akhtar dewan & vashi akhtar dewan & kalim akhtar dewan s/o-Amrullah dewan
				198	Private	Residential	0.0400	Vjaid dewan s/o-Gafur dewan, Sagir miya s/o-Naimudin miya & Wasir miya s/o-Naimudin miya, Naimudin miya s/o-Hawiv miya, Nurmahmad miya s/o-Hawiv miya, mo Nasrudin mo yunush s/o-Kdim miya, mo Sagir miya, mo Naimudin, mo Jamudin miya s/o- mo rafik miya, Nejam miya & vajir miya & mo Mansur & mo Najir s/o-late Rahmtellah miya
				197	Private	Residential	0.0140	Guddu miya s/o- mo Isha, Najir Husain s/o-mo Isha, mo Mustkim s/o-Mohram miya, Isha miya s/o-Samsul Hak, Yasin miya & Kadmudin miya s/o-late Sadik miya
				182	Private	Residential	0.0080	Sadhu baitha s/o-late Bahadur Baitha, Ramdev Baitha s/o-late Bahadur baitha
				180	Private	Residential	0.0260	Wadri sahni & Tulsi sahni & Suresh sahni s/o-late Munni sahni, Tulsi sahni s/o-late Munni sahni, viran sahni s/o-late dip sahni, Mu. Gorimaya devi w/o-late biltu sahni, Mu. Sulmati devi w/o-late chandrika sahni, Khedu sahni s/o-Late chandrika sahni, Shekh aavid s/o-shekh Manjur, Shekh Awas s/o-Late ekbal Husai
				169	Private	Residential	0.0140	Sakur miya s/o-Late Gulgani miya
				168	Private	Residential	0.0132	Sudama sahni s/o-Lalbihari sahni, Bhola sahni s/o-Sudama sahni, Shekh nausad s/o-shekh majhar, Yetwar sahni s/o-Mahadev sahni, Jhagru sahni s/o-Yetwar sahni
				165	Private	Residential	0.0040	Chhotelal Prasad s/o-Jaynath prasad
				164	Private	Residential	0.0060	Chhotelal Prasad s/o-Jaynath prasad
				163	Private	Residential	0.0060	Balisater Giri

				162	Private	Residential	0.0060	Shekh Naoshad s/o-shekh majhar
				161	Private	Residential	0.0060	Shekh Ishad & shekh tabrej s/o-shekh majhar
				157	Private	Residential	0.0240	Sadhu baitha & shivnandan baitha & Avtar baitha s/o-Late bahadur baitha
				156	Private	Residential	0.0370	Shekh khbir s/o-Shekh Tabarak
				151	Private	Residential	0.0020	Shekh khairati s/o-Shekh tabarak
				44	Private	Residential	0.0020	Chunnu sah & Lalbabu Sah s/o-Late narayan Sah
				38	Private	Residential	0.0010	Nawal baitha
				42	Private	Residential	0.0010	Nawal baitha
				41	Private	Residential	0.0020	Hafij miya
				40	Private	Residential	0.0040	parwati devi w/o-mahadev sah
				32	Private	Residential	0.0020	Shekh wajid husain s/o-shekh hefajat
				33	Private	Residential	0.0100	Shekh wajid husain s/o-shekh hefajat
				34	Private	Residential	0.0060	Ranjit gupta s/o-Ganesh sah
				5	Private	Residential	0.0030	Ranjit gupta s/o-Ganesh sah
				289	Govt.	Road	0.0540	Govt. of Bihar
				290	Private	Residential	0.1670	Mo. Alimudin s/o-shekh Abdul, Hawdin miya s/o-Bhola miya, Amjad miya s/o-Nejamudin, Gayasudin miya s/o-Jahur miya, Salamudin miya s/o-Jahur miya, Salaudin miya s/o-Jahur miya, awash miya s/o-Idrish miya, Kajim miya s/o-Nurmahmad miya, Mahmad kasim s/o-Nurmahmad miya, mo. Aalam s/o-Kitab miya, mo. Aashin s/o-Nurmahmad, Kadir miya, mo. Aashin s/o-Nurmahmad, Kadir miya & Asalam miya s/o-nurmaham, mo Kadir s/o-Nurmahmad, mo. Hamja khatun w/o-mo. Ishrail, Aasmohamd s/o-Hurai miya, mo. shakur miya s/o-Abdul miya, Ishlam miya s/o-Abdul miya, Modi miya & yasin miya s/o-Sadik miya, mo. Amanullah s/o-mo. sshavir & Meraj aalam s/o-mo. Ajimullah, mo. Amanullah s/o-shekh ekramullah s/o. shekh hamid
				303	Private	Residential	0.0769	Tabarak husain s/o-Nurmahmad dewan, Atimullah dewan s/o-Maksud dewan & Satahu dewan, Sakur dewan s/o-Latif miya, Aadar miya s/o-Latif miya, Kadir miya s/o-Latif miya,

								Sharif miya s/o-Latif miya
				309	Private	Residential	0.0100	Maimul Hak s/o-Karim miya
				310	Private	Residential	0.0100	Jauad miya s/o-Shamsul hak, Isha mohamad s/o-Hafij miya, mo. Chendu miya s/o-Shamsul miya
				334	Private	Residential	0.0270	Jamil Akhtar & mo. Serajul & mo. Ejamul s/o-Hafij miya, mo. Adalat miya s/o-shamsul Hak, mo. Wasir miya s/o-Shamsul miya
				335	Private	Residential	0.0210	mo. Amjad s/o-Marhum & Ishlam miya, Sarfudin miya s/o-wajid miya, Bulla miya s/o-Yenul miya, Adalat miya s/o-shamsul miya
				346	Private	Residential	0.0080	Ravindra paswan & Surendra paswan, Naresh pkswan &Hrendra paswan s/o-Drai paswan, Mu. Rajmati devi w/o-Late Sukeshwar paswan, Bhulawan paswan s/o-Late Bhukhal paswan, Sadhu paswan s/o-Late Bhukhal paswan
				347	Private	Residential	0.0080	Lalan paswan s/o-Bhulawan paswan, wigu paswan s/o-Bhulawan paswan
				349	Private	Residential	0.0090	Rajendra sahni s/o-Late Parikshan sahni, Meju tiwari w/o-Pashupati kumar tiwari
				350	Private	Residential	0.0051	Adalat miya
				359	Private	Residential	0.0440	Suraya sahni s/o-Thag sahni, Mohan sahni s/o-Ratan sahni
				118	Private	Residential	0.0480	Aatma sahni s/o-Late Bhola sahni, Satyanarayan puri, Shekh Nurul hak s/o-shekh shaukat, Jagdish sah s/o-Late Buni sah, Washdev sah s/o-Narayan sah, Jaimudin miya & Sarfudin miya s/o-Fajal miya, Ramsagar Sharma s/o-Ramji Sharma
				283	Govt.	Agriculture	0.1760	Chutun Prasad s/o-Indradev sah, Sonu kumar Jaysawal, Jaylal Prasad Jaysawal, Munmun Prasad s/o-Bijli sah, Naresh sharma s/o-Surya Sharma, Mish. Pratima devi w/o-Jaylal Prasad Jaysawal , Nagendra Prasad s/o-Late Ramshwarup sah, Vishwnath sah s/o-Ramashish sah, Aashalal Prasad s/o-Late Chandrika sah, Ramesh sahni & Suresh Sahni & Rakesh Sahni s/o-Yogi sahni, Dinesh kumar Jaysawal s/o- Late Ramsewak Prasad Jaysawal, Renu Gupta w/o-Late Vijay Gupta, Panchalal Prasad s/o-

								Late Ramanand Prasad, Nadeshwar sah s/o-Ramashish sah, Mish. Kishmati devi w/o-Vindeshwari sah & Vindeshwari sah s/o- Late Ganesh sah
				212	Private	Residential	0.2270	Mewalal sah s/o-Late Chandrika sah, Bhuaali sharma s/o-Late Rampunit sharma & Tuntun sharma s/o-Rampunit sharma & Prabhu sharma s/o-Late Ramprit sharma, Nandkishor & Chandeshwar sharma s/o-LateRajdev sharma, Valdev sharma s/o-Sundar Mistri, Jaymudin miya & amjad miya s/o- Fajal miya, Kismati devi w/o-Vindeshwari sah, Jagdish sah s/o-Bunilal sah, Vasdev sah s/o-Late Narayan sah, Manoj Prasad s/o- Jagdish Prasad, Anil miya s/o-Maimul Hak, Jaimudin & Sarfudin s/o-Fajal miya, Amjad Ali s/o-Nejamudin miya, Sadim miya s/o-Salim miya, mo. mostkim & mo. Kykm s/o-Kaim miya
				284	Temple	Temple	0.0285	Tempal
				285	Private	Residential	0.4020	Samaj sadan, Hiralal Prasad Jayswal s/o- Late Saryug Prasad Jayswal, Motilal Prasad Jayswal s/o-Late Saryug Prasad Jayswal, suresh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Ramesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad, Dinesh kumar Jayswal s/o-Ramsewak Prasad Jayswal, Rajesh kumar Jayswal s/o- Late Ramsewak Prasad Jayswal, Umesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Motilal Jayswal s/o-Late Saryug Prasad Jayswal, Suresh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Ramesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Dinesh kumar Jayswal s/o- Late Ramsewak Prasad Jayswal, Umesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Rajesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Hiralal Prasad Jayswal s/o-Late Saryug Prasad Jayswal,

								Suresh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak prasad Jayswal , Ramesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Dinesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Umesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Rajesh Kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Dinesh Kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Suresh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal, Ramesh kumar Jayswal s/o-Late Ramsewak Prasad Jayswal
			(2) Madhu Chapra	929	Private	Residential	0.0060	Rajendra Ray & Hiralal Ray s/o- Late Saryug Ray
				931	Private	Residential	0.0090	Rajendr Ray &Hiralal Ray s/o-Late Saryug Ray
				935	Private	Residential	0.0036	Shanti Pandye w/o-Harinarayan Pandye & Dayanand Pandye s/o-Vindeshwari Pandye
				943	Private	Residential	0.0080	wakil Baitha & Laldev Baitha s/o-Late Mahangu Baitha
				947	Private	Residential	0.0200	Surendra Das s/o-Late Yadunan Das & Chandradev Das s/o-Late shital Das & Ravindra kumar Das s/o-Tulshi Das & Rajendra Das s/o-Late Surya Das & Sachindra Das s/o-Late Satyadev Das
				951	Private	Residential	0.0172	Bholi sah s/o-Haruni Sah & Prabhu Sah s/o-Hiraman sah, Virendra Pandye & Omkar Pandye & Jawaharlal Pandye & Shankar Pandye & Narmdeshwar Pandye S/o-Late Shivji Pandye
				968	Private	Residential	0.0020	Mir Manudin s/o-Mir Nasrudin
				970	Private	Residential	0.0020	Mir Sjaad s/o-Mir Hasan, Babulal Baitha & Rajeshwar Baitha & shailendra Baitha & Rakesh Baitha s/o-Late Jhingan Baitha
				974	Private	Residential	0.0010	Mir Sajad s/o-Mir Abdul Hasan
				994	Private	Residential	0.0010	Sankar Sah & Rama Sah & Shyama Sah s/o- Nathuni Sah
			(3) Surujpur	33	Private	Residential	0.0204	yognan Bhagat & Raju Ranjan Prasad kushwaha & Suresh Prasad & Mahesh Prasad s/o-Late Anchit Bhagat, Parshuram Giri High School Jivdhara

				34	Private	Residential	0.0340	Parshuram Giri High School Jivdhara
				35	Private	Residential	0.0160	Yogendra Prasad s/o-Dhansurat Sah
				36	Private	Residential	0.0200	Virendra Prasad s/o-Dhansurat sah
				37	Private	Residential	0.0296	Virendra Prasad s/o-Dhansurat sah, Vindalal Sah & Mathura Sah & Bharat Sah s/o-Late Jagnath Sah
				38	Private	Residential	0.0350	Umashankar Prasad & Ramesh Prasad s/o-Late Kodai Sah, Dayanand Pandye s/o-Late Ramayodhaya Pandye, Ramchandra Sah s/o-Late Saryug sah
				42	Private	Residential	0.0820	Mathura Thakur s/o-Late Pragan Thakur, Dilip Ray & Punydev Ray & Sudip Ray & Chandrika ray s/o-Late Surya Ray, Bagad Ray s/o-Late Shivrindan Ray, Yogendra Ray s/o-Late Shivrindan Ray, Shushila devi w/o-Manikchand Prasad, Fulmohamd devan s/o-Late Tabarak Husain
				47	Private	Residential	0.0060	Ramdev Sah s/o-Late Dhuni Sah
				48	Private	Residential	0.0092	Ishlam miya & Abdullah miya s/o-Late Rasul Miya
				49	Private	Residential	0.0072	Babulal Ray s/o-Late Dukhharan Ray
				59	Private	Residential	0.0132	Nasrudin miya & Naimudin miya s/o-Late Sadak miya, Yenul Miya & Samsul Miya & sainul Miya s/o-Late Rajbali Miya, Bhola Miya & Akhtar Miya s/o-Late Jokhu Miya, Ranjit Gupta s/o-Late Ganesh Sah, Mahendra Sah s/o-Late Yugul Sah
				60	Private	Residential	0.0080	Gauri devi w/o-Nagina Thakur
				63	Private	Residential	0.0038	Ramesh kumar Pandye & Anil kumar Pandye s/o-Late Baliram Pandye
				65	Private	Residential	0.0116	Rambabu Singh s/o-Late Barahmdev Singh
				67	Govt.	Road	0.0128	Govt. of bihar
				259	Govt.	Road	0.0046	Govt. of bihar
				265	Private	Residential	0.0072	Rajendra Ray s/o-Late Ramrekha Ray, Harishankar Ray & Lalbabu Ray & Shambhu Ray s/o-Late Jagdish Ray
				270	Govt.	Residential	0.0046	Govt. of bihar
				271	Private	Residential	0.0036	Hiralal Ray s/o- Saryog Ray, Rajendra Ray s/o- Saryug Ray

				273	Private	Residential	0.0068	Ashutoshdatt Parasar s/o-Late Nandkishor Pandye, Rameshwar Ray & Ramagya Ray & Gorakh Ray & Shambhu Ray s/o-Late Baijnath Ray
				274	Private	Residential	0.0230	Chanda Pandye s/o-Late Nandkishor Pandye, Chandradev Ray s/o-Late Chhathu Ray
				282	Private	Residential	0.0134	Nagina Ray s/o-Late Devki Ray, Shanti devi w/o- Kishori Prasad
				315	Govt.	Road	0.0012	Govt. of bihar
		2. Motihari	(1) Bariyarpur	290	Govt.	Road	0.0060	Govt. of bihar
		3. Banjariya	(1) Chailahan	877	Private	Residential	0.0607	Tufani miya s/o-Mangar miya, Shekh Dara s/o-Shekh Rajjak, Diwakar ji s/o-Tripathi Tiwari & Mo. Khatmullah, Moti miya
			(2) Bela Chapra	240	Private	Residential	0.0101	Satyanarayan Ray s/o-Late Harishankar Ray
			(3) Panchrukha	6402	Private	Residential	0.0350	Jayram Ray s/o-Devki Ray, Hirdyanarayan Ray s/o-Jayram Ray, Shivpujan Ray s/o- Shyamlal Ray, Sukhari Sah s/o- Motilal Sah, Pramod Sah s/o- Ramchandra Sah, Sandrikha Prasad s/o-Mukha Sah
				6403	Private	Residential	0.0250	Harendra Sah & Dhura Sah , Mithu Sah s/o- Raghubir Sah, Mishrilal Ray s/o- Raman Ray, Jayram Ray s/o-Devki Ray, Hirdyanarayan Ray s/o-Jayram Ray
				6404	Private	Residential	0.0320	Narayan Sah s/o-Motilal Sah, Lakshmi Sah s/o-Motilal Sah, Sonalal Prasad s/o-Motilal Sah, Mithu Sah s/o-Raghubir Sah
			(4) Patkhauliya	479	Private	Residential	0.0100	Mustkim Rajak s/o-Hafi Miya, Kifayat Miya s/o-Late Habib Miya
		4. Sugauli	(1) Sugaun	2869	Private	Residential	0.0060	Vinay Jha s/o-Markande Jha
				3299	Private	Agriculture	0.0141	Amerika Sah s/o-Videshi sah
				3300	Private	Agriculture	0.0344	Ramchandra Raut s/o-Ramnath Raut, Chandshi Sah s/o-Late DhoDha Sah, Tej Raut s/o-Saryog Raut, Paras Raut s/o-Kaldev Raut, Nageshwar Raut s/o-Lakshman Raut, Arjan Raut s/o-Bhulan Raut, Hari Raut s/o-Saryug Raut, Asharfi Raut & Bharat Raut s/o-Gopal Raut, Inar Raut s/o-Shankar Raut, Ramlal Raut s/o-Sugrim Raut, Narayan Raut s/o-Chirangi Raut, Kishori Raut

								s/o-Ranraj Raut, Rajesh Sah s/o-Shri Prabhu Sah, Shambhu Sah s/o- LAKhan Sah
				3545	Private	Agriculture	0.0010	Jhunjhun Raut s/o-Devnandan Raut
				3544	Private	Agriculture	0.0030	Jhunjhun Raut s/o-Devnandan Raut
				3542	Private	Agriculture	0.0030	Ramayan Mahto s/o- Ramlochan Mahto
				3541	Private	Agriculture	0.0010	Mohan Paswan s/o-Fati Paswan
				3539	Private	Agriculture	0.0060	Ramayan Mahto s/o- Ramlochan Mahto, Mohan Paswan s/o-Fati Paswan
				3534	Private	Agriculture	0.0091	Ramchandra Mahto s/o-Late Raghuvir Mahto
				3538	Private	Agriculture	0.0060	Birlal Sah s/o-LateGhaneru Sah, Arjun Sah s/o-Bhola Sah
				3535	Private	Agriculture	0.0020	Hiraman Sah s/o-Late Gopal Sah, Brilal Sah s/o-Late Dhaneru Sah & Sudama Sah s/o-Late Dhaneru Sah, Yadu Mahto s/o-Ramlochan Mahto
				3550	Private	Agriculture	0.0010	Mo. Ishhak Miya
			(2) Phulwariya Ojha	221	Private	Agriculture	0.0060	Mo. Mustkim s/o- Mo. Ishhak Miya
			(3) Phulwariya	1414	Private	Irrigated	0.0060	Shekh Mainudin s/o- Farjan Ali
				1415	Private	Irrigated	0.0121	Shri Sudarshan Prasad
				1419	Private	Irrigated	0.0020	Iliyash Kuraishi & Mahmad Miya & Rafi Miya s/o-Salim Kuraishi
				1184	Private	Irrigated	0.0121	Shri Rohit Giri & KapilDev Tiwari s/o- Kuldip Tiwari
			(4) Sugauli	2267	Private	Developing	0.0060	Manjur Miya s/o-Rasid Miya & Majbullah Miya s/o-Roj Miya
				2255	Private	Developing	0.0607	Lukman Miya & Reyajul Miya & Serajul Miya s/o- Manshi Miya
				2218	Private	Developing	0.1831	Ishlam Miya s/o-Murtuja Miya & Ishf Miya s/o-Fida Miya & Mahmad Nesar s/o- Mo. Mubarak Miya, Mahmad Manjur Miya & Mahmad Nathuni Miya s/o-Baud Miya
				2223	Private	Developing	0.0202	Kitabudin Miya s/o-Mahbub Miya
				2219	Private	Developing	0.0161	Milan Kumar s/o-Shri Darshan Prasad
				2251	Private	Developing	0.0404	Neyamat Miya s/o-Idrish Miya
				3081	Private	Residential	0.0161	Sanjay Kumar Shrivastav s/o- Sharda Prasad Shrivastav, Sagir Ahmad & Najir Ahmad s/o-Sadik Ahmad & Mahmad Ahmad s/o-Bhuteli Miya &

								Keya Khatun w/o- Sah Mahmad, Rajesh Kumar s/o- Mahraj Prasad
				3080	Private	Residential	0.0040	mu. Shripati Devi w/o-Late Ditan Hajra
				3069	Private	Residential	0.0080	Jitendra Prasad Singh s/o- Nageshwar Singh
				3067	Private	Residential	0.0080	Mohan lal Modi s/o-Murli Modi
				3062	Private	Residential	0.0080	Santosh Kumar Soni s/o- Ramji Prasad, Jitendra Gupta & Suresh Gupta s/o-Nand Prasad
				4037	Private	Residential	0.0080	Ekbal Miya s/o-Sharif Miya & Mainudin Miya s/o-Rafik Miya, Suresh Prasad s/o- Baidhnath Prasad
				3939	Private	Residential	0.0202	Rohit Giri s/o-Omkar Giri
				4053	Private	Agriculture	0.0607	Jainudin Miya & Rushtam Miya s/o-Gafar Miya & Alaudin Miya s/o-Jabbar Miya
			(5) Sukul Pakad urf Belwatia	51	Private	Agriculture	0.0647	Ramlal Sah & Chhotelal Sah & Shyاملal Sah s/o-Keshwar Sah, Janak Sah s/o-Late tahir Sah
				52	Private	Agriculture	0.0404	Janak sah s/o-Late Tahir Sah, Surendra Sahni s/o-Mannu Sahni, Dinesh Sahni s/o- Shivbachchn Sahni, Yadavlal Sahni s/o-Late Khedu Sahni, Amar Sahni s/o- Lakhichan Sahni
				53	Private	Agriculture	0.0101	Yadavllal Sahni s/o-Late Khedu Sahni, Munnilal Sahni & Kokil Sahni & Surendra Sahni s/o- Bhanu Sahni, Ranchandra Sahni & Belash Sahni & Shankar Sahni s/o- Sahdev Sahni, Akalu Sahni s/o-Tilak Sahni, Ganesh Sahni & Paras Sahni s/o-Tilak Sahni, Kutai Sahni & Butai Sahni & Amar Sahni & Singasan Sahni s/o- Lakhichan Sahni.
				54	Private	Agriculture	0.0060	Yadavllal Sahni s/o-Late Khedu Sahni, Munnilal Sahni & Kokil Sahni & Surendra Sahni s/o- Bhanu Sahni, Ranchandra Sahni & Belash Sahni & Shankar Sahni s/o- Sahdev Sahni, Akalu Sahni s/o-Tilak Sahni, Ganesh Sahni & Paras Sahni s/o-Tilak Sahni, Kutai Sahni & Butai Sahni & Amar Sahni & Singasan Sahni s/o- Lakhichan Sahni.
				55	Private	Agriculture	0.0121	Belash Sahni & Shankar Sahni & Ramchandra Sahni s/oLate Sahdev Sahni

				56	Private	Agriculture	0.0040	Sankar Sahni & Belash Sahni & Ramchandra Sahni s/o-Late Sahdev Sahni
				57	Private	Agriculture	0.0070	Amar Sahni & Butai Sahni & Shivbalak Sahni & Singasan Sahni s/o-Late Lakhichan Sahni & Paras Sahni & Akalu Sahni & Ganesh Sahni s/o-Tilak Sahni
				58	Private	Agriculture	0.0283	Jagdev Thakur s/o-Yaduvanshi Thakur
				59	Private	Agriculture	0.0485	Jagdev Thakur s/o-Yaduvanshi Thakur
				1796	Private	Agriculture	0.1619	Mahmad Aashik & Mo. Salim & mo. Hasim & Mo. Mojmil s/o-Usmangani, Mo. Najir & Mo. Farid s/o-Mo. Kalim, Mo. Abulais s/o- Mo. Manjur Miya, Mo. Samsul Hak s/o-Kadam rasul Miya, Mo. Junaid s/o-Mo. Muslim, Mo. Nurain & Mo. Hasnain, Mo. Murad, Mo. Irsad s/o-Mo. Muslim, Kalichan Paswan s/o-Badari Paswan, Manish Paswan & Manoj Paswan & Mandip Paswan & Magit Paswan s/o-Late Ganesh Paswan
				1797	Private	Agriculture	0.0344	Brahma Mahto & Kailash Mahto & Jhanda Mahto s/o-Gena Mahto, Shiv Mahto s/o-Chhatu Mahto, Mohan Mahto s/o-Sukhal Mahto
				1798	Private	Agriculture	0.0182	Chhtu Mahto & Jiut Mahto s/o- Bhukhal Mahto
				1799	Private	Agriculture	0.0161	Bhagelu Sahni & Baldev Sahni s/o-Bhikhar Sahni
				1800	Private	Agriculture	0.0172	Chhatu Mahto & Jiut Mahto s/o-Bhukhal Mahto
				61	Private	Agriculture	0.0566	Surenda Sahni & Munnialal Sahni s/o-Late Bhanu Sahni, Akalu Sahni & Paras Sahni s/o-Late Tilak Sahni, Shivbalak Sahni & Amar Sahni & Singasan Sahni s/o-Lakhichan Sahni, Ganesh Sahni s/o-Late Tilak Sahni, Yadolal Sahni s/o-Khedu Shni, Dinesh Sahni s/o-Pancha Sahni
			(6) Lal Parasa	19	Private	Residential	0.0121	Shri Gopal Sahni & Ashish Sahni & Nathu Sahni s/o-Galut Sahni
			(7) Chil Jhapti Urf Juajjat	705	Private	Irrigated	0.0121	Shri Bhusi Thakur s/o-Narayan Thakur
				711	Private	Irrigated	0.0242	Shri Prabhu Sah & Yogendra Sah s/o- Gorakh Sah & Kishori Baitha s/o-Rudal Baitha

				709	Private	Irrigated	0.0242	Shri Bhola Mahto s/o-Mukha Mahto
				716	private	Irrigated	0.0161	Shri Rajjak miya s/o-Bhoj Miya
		5. Ramgadhwa	(1) Dhanhar Dihuli	2785	Private	Residential	0.3482	Prabhunath Pandye s/o-Late Baijnath Pandye, Basant Paswan & Sant Paswan & Shrikant Paswan s/o-Late Lalbhadur Paswan, Rajendra Prasad & Manistar Prasad s/o-Late Shiv Raut, Ravibhushan Kushwaha s/o-Chandrika Kushwaha
				2806	Private	Residential	0.0101	Horilal Patel s/o-Parmeshwar Patel
				2815	Private	Residential	0.0121	Abhinash Kushwaha & Premranjan Kushwaha s/o-Shri Aamichnd Kushwaha
				2816	Private	Residential	0.0172	Abhinash Kushwaha & Premranjan Kushwaha s/o-Shri Aamichnd Kushwaha
			(2) Aamodhei	5105	Private	Residential	0.0172	Tafkhajul Rahman s/o-Afjalur Rahman
		6. Raxaul	(1) Senuriya	456	Private	Residential	0.0222	Mahmud Aalam s/o-Late Jainudin Miya, Mahmad Gouri Aalam s/o-Late Moulbi Husain, Sultan Ahmad s/o-Late Moulbi Husain, Parwej Aalam s/o-Late Ekbal Husain
			(2) Kanna Parsotimpur	2286	Private	Residential	1.6690	Kamlesh kumar s/o-Jwaharlal Prasad, Anita devi w/o-Kamlesh Kumar, Mina Devi w/o-Jwaharlal Prasad, Manoj Kumar Sharma & Ashok Kumar Sharma s/o-Late Chhedilal Sharma, Parwati Devi w/o-Gopi Ram Agrwal, Nikkibabu, Dr. Rijwana w/o-Khurshid Aalam, Sarvlade India Dharmik Cheritebul Trust (Anath Asharm), Manir Ansari s/oLate Hamid Ansari, MAhmad Maksud Ansari s/o-Late Rahiman Miya, Mashhud Ansari s/o-Rasud Ansari, Mahmad Rafik s/o-Late Isha Miya , Atik Ansari s/o-Late Sadik Ansari
				930	Private	Residential	0.0222	Sitaram Ray & Ramdev Ray & Bhgwan Ray s/o-Late Inar Ray
				2258	Private	Residential	0.0222	Vinod Singh s/o-Late Sahdev Singh
				2289	Private	Residential	1.3513	Saimudin Ansari s/o-Abdul Hamid Miya, Umesh Kumar Mohta s/o-Late Baijnath Mohta & Ajit Kumar Mohta s/o- Vinod Kumar, Sagir Ahmad s/o-Late Jahir Husain & Sher Mahmad & Julfkar Ali s/o-Late Sarik Ansari,

								Wasir aalam & Muslim Ansari w/o-Late Nurmahmad, Tarif Miya s/o-Late Inayat Miya, Mojahid Miya s/o-Lakhtu Miya, Raju Gupta s/o-Ramashish Gupta, Mu. Somriya w/o-Late Shivilal Mahto, Mo. Imteyaj Ahmad & Jalil Ahmad s/o-Saggir Ahmad
				970	Private	Residential	0.0597	Jangbahadur Mahto s/o-Late Yogendra Mahto, Munnalal Mahto & Lalbahadur Mahto s/o-Late Yogendra Mahto, Sitaram Mahto s/o-Shivdayal Mahto
				931	Private	Residential	0.0080	Sahdev Ray s/o-Lorik Ray, Nayan Devi w/o-Shri Ray
				999	Private	Residential	0.0637	Rambalak Raut s/o- Chokat Raut
				961	Private	Residential	0.0060	Rambalak Raut s/o- Chokat Raut
				1001	Private	Residential	0.0356	Rambalak Raut s/o- Chokat Raut
				998	Private	Residential	0.0182	Rambalak Raut s/o- Chokat Raut
				1002	Private	Residential	0.0070	Rambalak Raut s/o- Chokat Raut
				979	Private	Residential	0.0060	Ramayodhya Raut s/o-Chokat Raut
				996	Private	Residential	0.0344	Ramagya Yadav s/o-Late Chokat Raut
				964	Private	Residential	0.0080	Yangbahadur Yadav s/o-Rambalak Yadav, Nayak Sah s/o-Bhukhal Sah
				997	Private	Residential	0.0283	Nayak Sah s/o-Late Bhukhal Sah
				1003	Private	Residential	0.0040	Nayak Sah s/o-Late Bhukhal Sah
				1052	Private	Residential	0.0050	Rameshwar Patel s/o- Banka Patel
				1022	Private	Residential	0.0212	Nagendra Raut s/o-Ramayodhya Raut, Dukhi Mahto s/o-Devraj Mahto
				951	Private	Residential	0.0040	Ramsewak Ray & Ganga Ray & Shambhu Ray s/o-Late Mangal Ray
				954	Private	Residential	0.0030	Ramsewak Ray & Ganga Ray & Shambhu Ray s/o-Late Mangal Ray
				959	Private	Residential	0.0070	Ramsewak Ray & Ganga Ray & Shambhu Ray s/o-Late Mangal Ray
				1051	Private	Residential	0.0040	Kamrudin Ansari s/o-Late Aalam Ahsari
				1029	Private	Residential	0.0040	Jamdar Mahto s/o-Late Dev Mahto
				945	Private	Residential	0.0020	Mahmad Ganni s/o-Hedayat Husain

				952	Private	Residential	0.0100	Ramsewak Ray s/o- Mangal Ray
			(3) Jokiyari	620	Private	Residential	0.0010	Mu. Vipti Devi w/o-Late Dindyal Prasad
				621	Private	Residential	0.0202	Vipin Kumar Prasad s/o-Late Dindyal Prasad
				1261	Private	Residential	0.0020	Tahir Miya s/o-Mobarak Miya
				182	Private	Residential	0.0020	Ramnaresj Prasad s/o-Ramnarayan Sah, Nandkishor Prasad s/o-Motilal Prasad, Paspati Devi w/o-Rajkumar Prasad, Ramesh Singh s/o-Late Chandra Singh, Manoj kumar Singh s/o-Late Nirmal Singh
				184	Private	Residential	0.1524	Narayan Prasad Sah s/o-Late Sharda Nand Prasad, Chanda Devi w/o-Ramdayal Prasad, Urmila Devi Virendra Prasad, Rajesh Gupta s/o-Ramnresh Prasad, Virendra Prasad s/o-Late Devnarayan Prasad, Ramesh Singh s/o-Late Chandra Singh, Manoj kumar Singh s/o-Late Nirmal Singh
				192	Private	Residential	0.0020	Praduman Kumar Gupta s/o-Rambrikch Sah
				611	Private	Residential	0.0202	Veni sah s/o-Bhadai Sah, Manur Husain s/o-Mahmad Miya, Suresh Mahto s/o-Mukhi Mahto
				614	Private	Residential	0.0020	Avdhes Prasad & Vinay Prasad s/o-Jivnarayan Sah
				617	Private	Residential	0.0060	Vinda sah s/o-Late Sitaram Sah
				619	Private	Residential	0.0293	Ramnivas Kumar s/o-Gaya Sah
				1234	Private	Residential	0.0070	Mo. Husain
				1252	Private	Residential	0.0020	Manchand Sah s/o-Chaturi Sah
			(4) Dhangadh wa Tola Parewa	289	Private	Developing	0.0222	Mahmad Suyan s/o-Late Ahmad Miya
				292	Private	Developing	0.0141	Sonapati Devi w/o-Hira Ray
				315	Private	Developing	0.0597	Kapildev Raut s/o-Late Nasib Raut
			(5) Chikni	260	Private	Residential	0.0141	Rambabu Sah s/o-Late Brhmdev Sah
				266	Private	Residential	0.0303	Govind Sikariya s/o-Purushotam Sikariya, Rita Devi w/o-Govind Sikariya, Hiran Das s/o-Surapal Das
				254	Private	Residential	0.0850	Prabhat Ranjan Sinha s/o-late Ekbal Narayan Sinha, Lalbabu Shrivastav s/o-Late Ramchnadra Shrivastav
				253	Private	Residential	0.1295	Tarkeshwar Shrivastav s/o-

								Ramjilal Shrivastav, Lakshuman Prasad & Lalbabu Prasad & Navnit Shirvastav s/o-Makusadan Shrivastav
				256	Private	Residential	0.0111	Vijay Das s/o-Late Vira Das
			(6) Singhpur	324	Private	Residential	1.0121	Narendrapratap Singh s/o- Late Rajmangal Singh, Sumeshwar Singh s/o- Late Raghunath Singh, Satyanarayan Baitha s/o-Late Bhikhari Baitha, Shyam Prasad Kushwaha s/o-Ambika Prasad, Ilaichi Devi w/o- Ramashray Mahto, Chhatu Mahto, Nagendra Mahto s/o- Late Ranraj Mahto, Maksud Miya s/o-Hedayat Ansari, Mahmad Sarif Ansari s/o- Hedayat Ansari
				341	Private	Residential	0.0222	Anup Kumar singh s/o-Late Kameshwar Singh
			(7) Haraiya	311	Private	Residential	0.2874	Narendra Pratap Singh s/o- Late Rajmangal Singh
				580	Private	Residential	0.0080	Dukhi Miya s/o-Late Ekbali Miya, Rameshwar Sah s/o- Late Harihar Sah, Usman Miya s/o-Sahid Ansari
				560	Private	Residential	0.0587	Ramjanak Ram s/o-Late Chuni Hajra, Ramdhari Hajra s/o-Late Chuni Hajra, Vijay Paswan & Ajay Paswan & Sunay Paswan & Vinay Paswan s/o-Bhagirath Hajra, Badri Paswan

[F. No. NHAI/BOT/11012/19/2004/LA]

MAYA PRAKASH, Director